



केलकता लगातार चार मैच जीतने के बाद आत्मवश्वास से ओतप्रोत केलकता नाइट राइडर्स घरेलू मैदान ईडन पर आइपीएल-सात के अपने पहले मैच में मंगलवार के चेन्नई सुपर किंग्स के हराकर प्लेआफ में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी।

संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुए टूर्नामेंट के आखिरी चरण आरंभ हो चुका है और ऐसे में केलकता नाइट राइडर्स के घरेलू हालात में खेलने का फायदा मल्लिका। केलकता नाइट राइडर्स के आक्रमण का दारोमदार चालाक परिकी गेंदबाज सुनील नारायण पर होगा जो कप्तानी गेंदबाजी के साथ 15 विकेट ले चुके हैं। उनके अलावा आक्रमक बल्लेबाज राबिन उथप्पा भी फॉर्म में लौट आये हैं। उथप्पा ने भारतीय चरण में छह मैचों में दो अर्धशतकों के साथ 54.16 की औसत से रन बनाये हैं। वे 11 मैचों में 422 रन बना चुके हैं जसमें से 325 रन भारत में बने हैं।

कप्तान गंभीर ने भी रन बनाने शुरू कर दिये हैं। हैदराबाद के खिलाफ रविवार के मैच में मल्लिका सात विकेट से जीत में रयान टेन डोइशे और मैच विनर यूसुफ पठान की नाबाद पारियों से भी केलकता नाइट राइडर्स खेमे ने राहत महसूस की होगी। यूसुफ ने 27 गेंदों में 38 रन बनाये। जबकि डोइशे ने आखिरी ओवर में 10 छक्के और चौक लगाकर 10 रन बनाये।

{loadposition user13}

प्लेआफ में चौथे स्थान के लिए मुंबई केलकता नाइट राइडर्स, रायल चैलेंजर्स बंगलूर और हैदराबाद के बीच है। केलकता नाइट राइडर्स के बंगलूर से दो और हैदराबाद से चार अंक अधिक हैं। ऐसे में गंभीर की टीम के आत्ममुग्धता से बचना होगा चूंकि उसका सामना दो बार की पूर्व चैपियन और आइपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम चेन्नई से है।

चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर बंगलूर से मल्लिका हार से सबक लिया होगा। अब तक 11 मैचों में से आठ जीत चुकी चेन्नई दूसरे स्थान पर है। धोनी टीम में ज्यादा बदलाव करने वाले कप्तानों में से नहीं है। डेविड हसी को ब्रेंडन मैकुलम की जगह शामिल किया गया जो अपने बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट गए हैं। चेन्नई की टीम ने टूर्नामेंट में 10 कभी मैच में दस विकेट नहीं खोये हैं। डेविड स्मिथ और मैकुलम ने इस सत्र में टीम को अच्छी शुरुआत दी है। स्मिथ ने 11 मैचों में 449 रन बनाये हैं जबकि मैकुलम ने 352 रन जोये हैं।

(भाषा)